

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 24.09.2022

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

करीब 10 लाख रूपये के अवैध 14400 नशीले कैप्सूल, 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 03 कारतूस 315 बोर, 02 अदद मोबाइल फोन, 370/- रूपये नगद व 01 अदद मो0सा0 पल्सर रजि0 UP27AX-8063 बरामद कर 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे मादक पदार्थो की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री वी0एस0 वीरबहादुर, क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण मे थाना तिलहर को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 23.06.2022 को श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के नेतृत्व में थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 16.30 बजे **मरिया धाम स्वास्थ्य केन्द्र के दक्षिण पुलिया के पास से 02 अभियुक्तो 1. मनमोहन उर्फ लालू 2. सुभाष चन्द्र वर्मा** को अवैध नशीले कुल 14,400 कैप्सूल (कीमत करीब 10 लाख रूपये), 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 03 कारतूस 315 बोर, 02 अदद मोबाइल फोन, 370/- रूपये नगद व 01 अदद मो0सा0 पल्सर रजि0 UP27AX-8063 के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त **विजय** मौके से फरार हो गया । बरामदगी के आधार पर थाना तिलहर पर क्रमशः मु0अ0सं0 718/22 धारा 8/21/22 NDPS ACT बनाम 01. मनमोहन उर्फ लालू 02. सुभाष चन्द्र वर्मा 03. विजय व मु0अ0सं0 719/22 धारा 3/25 A ACT बनाम 01. सुभाष चन्द्र वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

मरिया धाम स्वास्थ्य केन्द्र के दक्षिण पुलिया के पास से, दिनांक 23.06.2022 व समय 16.30 बजे

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मनमोहन उर्फ लालू पुत्र राकेश निवासी मौ0 खनपुरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर ।
2. सुभाष चन्द्र वर्मा पुत्र विश्राम वर्मा निवासी ग्राम मथाना थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर हाल निवासी मौ0 निजामगंज आर0 बी0 एम0 स्कूल के पीछे बारह पत्थर रोड थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर ।

फरार अभियुक्त-

1. विजय पुत्र भूपराम निवासी मौ0 खनपुरा थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर ।

बरामदगी विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 03 कारतूस 315 बोर ।
2. अवैध कुल 14400 नशीले कैप्सूल (कीमत करीब 10 लाख रूपये) ।
3. 02 अदद मोबाइल फोन ।
4. 01 अदद मो0सा0 पल्सर रजि0 UP27AX-8063 ।
5. 370/- रु नगद ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 718/22 धारा 8/21/22 NDPS ACT बनाम 01. मनमोहन उर्फ लालू 02. सुभाष चन्द्र वर्मा 03. विजय
2. मु0अ0सं0 719/22 धारा 3/25 A ACT बनाम सुभाष चन्द्र वर्मा

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 15/2015 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम मनमोहन उर्फ लालू उपरोक्त

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त सुभाष चन्द्र वर्मा पुत्र विश्राम वर्मा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरा ग्राम मथाना में मेडिकल स्टोर है जिस पर मैं अवैध रूप से झोलाछाप डाक्टरी करता हूँ। इसी डाक्टरी की आड़ में आस पास के लोगो को SPAS-TRANCAN PLUS अवैध नशीले कैप्सूल खाने के लिए देता था तथा इससे पूर्व इस काम को ड्रग्स माफिया सर्वेश पुत्र बैजनाथ निवासी खनपुरा कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर करता था उसके जेल जाने के बाद फरार अभियुक्त विजय पुत्र भूपराम निवासी मौ० खनपुरा थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर ने बताया कि इस काम में काफी मुनाफा है तो मेरे पास शाहजहाँपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम अरविन्द है आता है जो पहले सर्वेश को नशीले कैप्सूल देता था। अब इस काम को तुम कर लो। मैं लालच में आकर विजय से नशीले कैप्सूल मंगा लिये और इन कैप्सूलो को क्षेत्र में बेचने के लिए अपनी दुकान पर ले जा रहा था तभी पुलिस ने पकड लिया। तमंचा के बारे में पूछा तो बताया कि साहब हम अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा रखते है।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. श्री संदीप कुमार गुप्ता औषधि निरीक्षक सीतापुर।
3. श्री विवेक कुमार सिंह औषधि निरीक्षक बरेली।
4. बबिता रानी औषधि निरीक्षक बरेली।
5. मय उ०नि० सुखपाल सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
6. हे०का० 427 अनिल कुमार सिद्धु थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
7. का० 2259 दीपक कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
8. का० 2148 आशीष कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
9. म०का० 473 सीमापाल थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर